



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 09-09-2021

आज दिनांक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश द्वारा यातायात लाईन स्थित सभागार में वाराणसी कमिश्नरेट के सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं अपराध श्री सुभाष चन्द्र दूबे, अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था श्री अनिल कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त, काशी जोन श्री अमित कुमार, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री विक्रान्त वीर, सहायक पुलिस आयुक्त लाईम श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्री ज्ञान प्रकाश राय आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। उक्त सैनिक सम्मेलन में सभी थानों एवं शाखाओं से आये हुए अधि०/कर्म०गण ने भाग लिया। इस दौरान कई अधि०/कर्म०गण द्वारा पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी के समक्ष अपनी-अपनी समस्याओं को रखा गया, जिसके तत्काल/उपयुक्त निदान हेतु पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सम्बन्धित को आदेशित/निर्देशित किया गया।

सम्मेलन के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित को निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- ❖ सभी प्रकार के देयकों के सम्बन्ध में सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को जानकारी दी जाये तथा सभी प्रकार के देयकों का समय से भुगतान किया जाये।
- ❖ नामिनी बदलने से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाये।

- ❖ सेवानिवृत्त होने वाले समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण के पेन्शन सम्बन्धी सभी परिपत्र समय से तैयार कर लिये जाये।
- ❖ गृह निर्माण/बच्चों की शादी/शिक्षा आदि के लिए जीपीएफ से धनराशि निकालने हेतु आये हुए आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित किये जाये।
- ❖ आवास का आवंटन नियमानुसार वरीयता के क्रम में किया जाये।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।